

बलटाना में डेयरी से 120 किलो नकली देसी घी बरामद, तीन लोग राउंडअप



मोहाली ब्यूरो

Updated Mon, 04 Apr 2022 01:51 AM IST



जीरकपुर। बलटाना पुलिस ने डिटेक्टिव एजेंसी स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ की शिकायत पर बलटाना मार्केट से भगवती डिपार्टमेंटल स्टोर उर्फ गर्ग डिपार्टमेंटल स्टोर और जै दुर्गा स्टोर से करीब 120 किलो नकली देसी घी बरामद किया है। इस मामले में पूछताछ के लिए तीन लोगों को राउंडअप किया गया है। डिटेक्टिव एजेंसी के निदेशक और मैनेजर की ओर से दावा किया जा रहा है कि बाजार में बेचा जा रहा यह घी नकली है। इसकी शिकायत पर पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

इस संबंधी शिकायतकर्ता स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ कंपनी के मैनेजर चन्द्र शेखर और डायरेक्टर रमेश दत्त ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ सेक्टर-26 की मंडी में मैसर्ज तारा चंद एंड सुशील कुमार नामक फर्म पतंजलि मार्का देसी नकली घी की सप्लाय जीरकपुर एरिया में करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल नवरात्र चल रहे हैं और लोग आस्था के मुताबिक ज्योत जलाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसों के लालच में इसके लिए नकली देसी घी बाजार में बेच रहे हैं। इसके चलते उनकी कंपनी स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ की ओर से जीरकपुर पुलिस से तालमेल करने के बाद नकली देसी घी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 120 किलो नकली देसी घी पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए तीन लोगों को राउंडअप किया है और अभी इनके नाम का खुलासा नहीं किया है।

घी के सैंपल जांच के लिए भेजे

इस मामले में डिटेक्टिव एजेंसी की शिकायत मिलने पर बलटाना मार्केट में दो दुकानों से पतंजलि मार्का करीब 120 किलो देसी नकली घी बरामद किया गया है। इसकी जांच के लिए सैंपल लेकर लैब में भेज दिए गए हैं कि यह घी असली है या नकली। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। -ओंकार सिंह बराड़, एसएचओ, पुलिस थाना जीरकपुर

Source: <https://www.amarujala.com/punjab/mohali/120-kg-fake-desi-ghee-recovered-from-dairy-in-baltana-three-people-roundup-mohali-news-pkl4465594145>